



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 26-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 26, 2018 (ASADHA 5, 1940 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 जून, 2018

संख्या 933-कृषि II(4)-2018/8434.— हरियाणा कपास ओटाई तथा दबाई कारखाना अधिनियम, 1992 (1993 का 16), की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, कपास ऋतु 2017-2018 (प्रथम सितम्बर, 2017 से 31 अगस्त, 2018 तक) के लिए प्रति गांठ निम्नलिखित प्रभार नियत करने के लिए प्रस्तावित करते हैं। ये प्रभार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में गांठ की गुणवत्ता तथा टिकाऊपन को सुनिश्चित करने के लिए नई लोहे की पट्टियों सहित नये स्टैण्डर्ड हैशियन 50"/11 औंस—(हैफेड गिनरीज चौड़ाई के सम्बन्ध में हैशियन की उसी गुणवत्ता का प्रयोग करेगा) सहित गांठ को सभी ओर से पूर्णरूप से उनके लिए, जो उनकी ओटाई तथा दबाई के लिए कारखानों के स्वामियों द्वारा प्रभारित की जायेंगी :—

क्रम संख्या	मद	केवल गिनिंग (₹ प्रति गांठ)	केवल प्रैसिंग (₹ प्रति गांठ)	गिनिंग तथा प्रैसिंग	शुद्ध प्रति गांठ	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
1	सां-गिनिंग	290	282	572	सभी मासों के लिए 170 किलोग्राम + 5 किलोग्राम, मार्च से जून को छोड़कर जब समायोजन सीमा +7 किलोग्राम होगी।	गांठों को सभी ओर से पूर्ण रूप से ढकने के लिए पैकिंग में प्रयोग की गई सामग्री की लागत सहित।
2	डबल रोलर गिनिंग (मार्डन)	440	282	722		
3.	रोलर-गिनिंग (सफाई सहित)	255	237	492		
4.	रोलर गिनिंग (बिना पूर्व सफाई सहित)	253	237	490		

इसके द्वारा, सभी हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस दिया जाता है कि इस प्रस्ताव पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात् सरकार द्वारा, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हो, सहित जो इसके द्वारा प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति से कृषि निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा, पंचकूला द्वारा विपणन अधिकारी, हरियाणा कृषि भवन, सैक्टर-21, पंचकूला के माध्यम से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं विचार, किया जाएगा।

डॉ० अभिलक्ष लिखी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE DEPARTMENT

Notification

The 11th June, 2018

No. 933-Agri.II(4)2018/8434.— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Haryana Cotton Ginning and Pressing Factories Act, 1992 (16 of 1993), the Governor of Haryana hereby proposes to fix for the Cotton Season 2017-18 (from 1st September, 2017 to 31st August, 2018), the following charges per bales. These rates are for full coverage from all sides of the bale with new standard Hessian 50"/110Z (Hafed ginneries shall use same quality of Hessian in respect of width) with new iron hoops to ensure quality and durability of bale throughout the State of Haryana, which shall be charged by the factory owners for ginning and pressing thereof:-

Serial Number	Item	Ginning only (₹ per bale)	Pressing only (₹ per bale)	Ginning and Pressing (₹ per bale)	Net weight per bale	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	Saw Ginning	290	282	572	170 Kilogram \pm 5 Kilogram for all months except during March to June when the tolerance limit shall be \pm 7 Kilogram	Inclusive cost of material used in packing for full coverage from all sides of the bale.
2.	Double Roller Ginning (Modern)	440	282	722		
3.	Roller Ginning (with pre-cleaning)	255	237	492		
4.	Roller Ginning without (pre-cleaning)	253	237	490		

Notice is hereby given to all concerned that the proposal shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette together with the objections or suggestion, if any, which may be received by Director, Agriculture and Farmers Welfare Department, Haryana through the Marketing Officer, Haryana Krishi Bhawan, Sector – 21, Panchkula from any person likely to be affected thereby before the expiry of the period so specified.

DR. ABHILAKSH LIKHI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Agriculture and Farmers Welfare Department.